## कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पिठत धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शिक्तयों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रवत्त शिक्तयों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे प्रत्येक खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रमार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

क्र0 सं0	शाखा / ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर के नाम		मांग नोटिस की तिथि	विषकाय गय कब्जा नोटिस की तिथि	भाग नाटस क अनुसार बकाया रकम
1.	शाखाः तिलक रोड	सुरक्षित सम्पत्तियों की अनुसूची (प्राथमिक)	05.11.2019	20.01.2020	
	ऋणीः मैसर्स एस एण्ड एन लाईफ	<b>सम्पत्ति नं0 1.</b> बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 112 (फसली वर्ष 1417-1422) का भाग खसरा			11,58,52,314.00/-
	स्टाइल इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड	नं0 920, माप क्षेत्रफल 815.06 वर्ग मीटर एवं खसरा नं0 924, माप क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर।			+ ब्याज एवं
	(डायेक्टर श्री सचिन उपादेय पुत्र	कुल क्षेत्रफल 965.06 वर्ग मीटर एवं 0.0965 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून,			अन्य खर्चे
	स्व0 श्री पी0डी0 उपादय एव	जिला- देहरादुन, विक्रेय विलेख नं0 7028, दिनांक 11.12.2014। <b>सीमार्यैः</b> - उत्तरः अन्य की			दिनांक
	श्रीमती नाजिया यूसुफ इजुद्दीन	भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि, पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः अन्य की भूमि।			01.11.2019 से
	पित्नि श्री सचिन उपादेय)	<b>सम्पत्ति नं0 2.</b> बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 112 (फसली वर्ष 1417-1422) का भाग खसरा नं0 918	माप क्षेत्रफल	T 504.94 वर्ग	मीटर एवं 0.0505
	गारन्टरः श्रामता नामता यूसुफ	हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 7036, दिनांक 11.1:			
	इजुद्दीन	विक्रेता की भूमि, पूर्वः 40 फीट चौडा रास्ता, पश्चिमः अन्य की भूमि।			o,

सम्पत्ति नं0 3. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 39 (फसली वर्ष 1417-1422) का भाग खसरा नं0 925, माप क्षेत्रफल 1090 वर्ग मीटर एवं 0.1090 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेव विलेख नं0 7029, दिनांक 11.12.2014। सीमायैं:-उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि, पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः विक्रेता की भूमि। सम्पत्ति नं0 4. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 112 (फसली वर्ष 1417-1422) का भाग खसरा नं0 933 ka, माप क्षेत्रफल 610 वर्ग मीटर एवं 0.0610 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेव विलेख नं0 7030, दिनांक 11.12.2014। सीमायैं:-उत्तरः अन्य की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि, पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः अन्य की भूमि। सम्पत्ति नं0 5. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 112 (फसली वर्ष 1417-1422) का भाग खसरा नं0 933 Ga, माप क्षेत्रफल 790 वर्ग मीटर एवं 0.0790 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेव विलेख नं0 7032, दिनांक 11.12.2014। सीमायैं:-उत्तरः अन्य की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि, पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः अन्य की भूमि।

**सम्पत्ति नं0 6.** बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 112 (फसली वर्ष 1417-1422) का भाग खसरा नं0 933 Gha, माप क्षेत्रफल 1050 वर्ग मीटर एवं 0.1050 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 7033, दिनांक 11.12.2014। **सीमायैं:**-उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि, पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः विक्रेता की भूमि।

**सम्पत्ति नं0 7.** बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 112 (फसली वर्ष 1417-1422) का भाग खसरा नं0 933 Gha, माप क्षेत्रफल 1050 वर्ग मीटर एवं 0.1050 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 7034, दिनांक 11.12.2014। **सीमार्ये**:-उत्तरः अन्य की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि, पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः अन्य की भूमि।

#### सुरक्षित सम्पत्तियों की अनुसूची (अतिरिक्त)

सम्पत्ति नं0 1. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 112 (फसली वर्ष 1417–1422) का भाग खसरा नं0 936 ka, माप क्षेत्रफल 490 वर्ग मीटर एवं 0.0490 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 936 kha माप क्षेत्रफल 140.25 वर्ग मीटर एवं 0.0140 हैक्टेयर। कुल क्षेत्रफल माप क्षेत्रफल 630.25 वर्ग मीटर एवं 750 वर्ग गज एवं 0.0630 हैक्टेयर। स्थित मीजा छलांग, परगना परवादून, जिला– देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 7035, दिनांक 11.12.2014 एवं सीमार्थे:-उत्तरः हरित क्षेत्रफल, दक्षिणः तनवीर राशद खान की भूमि, पूर्वः 39 फीट चौडा रास्ता, पश्चिमः हरित क्षेत्रफल। सम्पत्ति नं0 2. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 79 (फसली वर्ष 1423-1428) का भाग खसरा नं0 915 kha, माप क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर एवं 0.0200 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून, जिला– देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 2532, दिनांक 19.04.2017 एवं सीमार्थे:- उत्तरः 39 फीट चौडा रास्ता, दक्षिणः क्रेता की भूमि, पूर्वः क्रेता की भूमि, पश्चिमः क्रेता की भूमि। सम्पत्ति नं0 3. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 79 (फसली वर्ष 1423-1428) का भाग खसरा नं0 915 kha, माप क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर एवं 0.0200 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून, जिला– देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 2531, दिनांक 19.04.2017 एवं सीमार्थे:- उत्तरः 39 फीट चौडा रास्ता, दक्षिणः क्रेता की भूमि, पूर्वः क्रेता की भूमि, पश्चिमः क्रेता की भूमि। सम्पत्ति नं0 4. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 79 (फसली वर्ष 1423-1428) का भाग खसरा नं0 915 kha, माप क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर एवं 0.0200 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून, जिला– देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 2530, दिनांक 19.04.2017 एवं सीमार्थे:- उत्तरः 39 फीट चौडा रास्ता, दक्षिणः क्रेता की भूमि, पूर्वः क्रेता की भूमि, पश्चिमः क्रेता की भूमि। सम्पत्ति नं0 5. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 79 (फसली वर्ष 1423-1428) का भाग खसरा नं0 915 kha, माप क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर एवं 0.0250 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परगना परवादून, जिला– देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 2529, दिनांक 19.04.2017 एवं सीमार्ये:- उत्तरः 39 फीट चौडा रास्ता, दक्षिणः क्रेता की भूमि, पूर्वः क्रेता की भूमि। सम्पत्ति नं0 5. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 79 (फसली वर्ष 1423-1428) का भाग खसरा नं0 915 kha, माप क्षेत्रफल 250 वर्षा मीटर एवं 0.0250 हैक्टेयर। स्थित मौजा छलांग, परवादून, जिला– देहरादून, विक्

#### सुरक्षित सम्पत्तियों की अनुसूची

**सम्पत्ति नं0 1.** बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 23 (फसली वर्ष 1420-1425) का भाग खसरा नं0 164, माप क्षेत्रफल 156.62 वर्ग मीटर एवं 0.0156 हैक्टेयर, खसरा नं0 225 माप क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर एवं 0.0015 हैक्टेयर, खसरा नं0 256 माप क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर एवं 0.0040 हैक्टेयर, कुल माप क्षेत्रफल 211.62 वर्ग मीटर एवं 0.0211 हैक्टेयर। स्थित मौजा केरवन करनपुर, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 1603, दिनांक 23.02.2015 एवं **सीमापें**:- उत्तरः अन्य की भूमि, दक्षिणः अन्य की भूमि, पूर्वः 15 फीट चौडा रास्ता, पश्चिमः अन्य की भूमि।

सम्पिति नं0 2. बंथक भूमि खाता खतीनी नं0 06 (फसली वर्ष 1420-1425) का भाग खसरा नं0 94, माप क्षेत्रफल 43 वर्ग मीटर एवं 0.0043 हैक्टेयर, खसरा नं0 17 माप क्षेत्रफल 124 वर्ग मीटर एवं 0.0124 हैक्टेयर, खसरा नं0 23 माप क्षेत्रफल 235 वर्ग मीटर एवं 0.0235 हैक्टेयर, खसरा नं0 34 माप क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर एवं 0.0040 हैक्टेयर, खसरा नं0 55, माप क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर एवं 0.0008 हैक्टेयर, खसरा नं0 08 Chla-Min माप क्षेत्रफल 2470 वर्ग मीटर एवं 0.2470 हैक्टेयर एवं भूमि खाता खतौनी नं0 20 (फसली वर्ष 1420 से 1425) का भाग खसरा नं0 08 Ga। माप क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर एवं 0.0120 हैक्टेयर, खसरा नं0 09 माप क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर एवं 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नं0 10 माप क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर एवं 0.0900 हैक्टेयर खसरा नं0 19 (फसली वर्ष 1420 से 1425) का भाग खसरा नं0 91 माप क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर एवं 0.0036 हैक्टेयर, खसरा नं0 93 माप क्षेत्रफल 07 वर्ग मीटर एवं 0.0007 हैक्टेयर कुल माप क्षेत्रफल 4783 वर्ग मीटर एवं 0.4783 हैक्टेयर, स्थित मीजा केरवन करनपुर, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 1605, दिनांक 23.02.2015।

**सम्पत्ति नं0 3.** बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 23 (फसली वर्ष 1420-1425) का भाग खसरा नं0 308, माप क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर एवं 0.0016 हैक्टेयर, खसरा नं0 309 माप क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर एवं 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं0 310 माप क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर एवं 0.0100 हैक्टेयर, कुल माप क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर एवं 0.0216 हैक्टेयर। स्थित मौजा केरवन करनपुर, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 1604, दिनांक 23.02.2015 एवं **सीमार्थे:**- उत्तरः अन्य की भूमि, दक्षिणः अन्य की भूमि, पूर्वः अन्य की भूमि, पश्चिमः 15 फीट चौडा रास्ता।

सम्पति नं**0 4.** बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 20 (फ़सली वर्ष 1414-1419) का भाग खसरा नं0 26, माप क्षेत्रफल 0.0120 हैक्टेयर, खसरा नं0 31 Kha माप क्षेत्रफल 0.0120 हैक्टेयर, खसरा नं0 33 माप क्षेत्रफल 0.0120 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 25 क्षेत्रफल 0.0040 हैक्टेयर, खुल माप क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर एवं 400 वर्ग मीटर। स्थित मौजा केरवन करनपुर, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 1610, दिनांक 27.05.2011 एवं **सीमार्थे**:- उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि, पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः विक्रेता की भूमि।

सम्पत्ति नं0 5. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 20 (फसली वर्ष 1414-1419) का भाग खसरा नं0 08 Ka, माप क्षेत्रफल 0.0430 हैक्टेयर, खसरा नं0 08 Kha माप क्षेत्रफल 0.0570 हैक्टेयर, कुल माप क्षेत्रफल 0.1000 हैक्टेयर एवं 1000 वर्ग मीटर। स्थित मौजा केरवन करनपुर, परगना परवादून, जिला- देहरादून, विक्रेय विलेख नं0 1612, दिनांक 27.05.2011 एवं सीमार्थे:- उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि, पूर्वः विक्रेता की भूमि, प्रश्चमः विक्रेता की भूमि।

सम्पत्ति नं0 6. बंधक भूमि खाता खतौनी नं0 390, पुराना खसरा नं0 196, माप क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज एवं 836.43 वर्ग मीटर एवं 0.0836 हैक्टेयर। स्थित मौजा सिनोला, सेन्ट्रल दून, जिला- देहरादून लाल रेखाओं द्वारा संलग्न साइट प्लान में दिखाया गया है, विक्रेय विलेख नं0 7404, दिनांक 16.12.2004। सीमार्ये:- उत्तरः श्रीमती जैन की भूमि, दक्षिणः श्रीमती दीपा सिंह की भूमि, साइड माप 154 फीट, पूर्वः श्रीती दीपा सिंह की भूमि, साइड माप 62 फीट, पश्चिमः रास्ता।

दिनांकः २४.01.2020 स्थान – देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

## इलाहाबाद बैंक 🛕 ALLAHABAD BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) मण्डलीय कार्यालय : नई दिल्ली, प्रथम तल, 17 संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

अचल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

## बिज़नेस स्टैंडर्ड नई वि

## पंजाब नैशनल बैंक **ए** ०

वित्त प्रभाग (शेयर संख्या ४. सेक्टर 10. द्वा

प्र.का, प्लाट संख्या ४, सेक्टर 10, द्वार दूरभाषः 011—28044866; ई—मेल आइ नोटिस

एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सू अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 29 के साथ 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही के लि गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अन् बेटक का आयोजन मंगलवार 4 फरवरी, 2020 को हं अधिक जानकारी हेतु निवेशक हमारी वेबसाईट एक्सचेजों की वेबसाईट www.nseindia.com, w ले सकते हैं।

दिनांकः 23.01.2020 स्थानः नई दिल्ली

> क्रं. सं.



ऋणी / गारन्टर / बंधकक

। शाखाः मुरादाबादः ऋणीः- अनिल ग्राम-भैंसियां, मुरादाबाद-244001, गारंटरः श्री किशन लाल पुत्र डाल च

192, ग्राम भैंसियां मुरादाबाद-2440

2. शाखाः मुरादाबाद-ऋणीः नरेश च चन्द्र शर्मा, सीतापुरी दास सराय, नि मुरादाबाद-244001, सह-ऋणी- श्री पत्नी नरेश चन्द्र शर्मा, दुरोश नगर, दुकान, सीतापुरी दास सराय, निश् मुरादाबाद-244001 <u>गास्टर</u> श्री दिने महेन्द्र सिंह राघव, भृदीड्डा द्रोपदी

गली, मन्दिर के पास सिटी, मुरादाबार 3. शाखाः मुरादाबाद—ऋणीः 1. मैं मौहम्मद मतेन, काटा बाग, अस्तात् पार्क, मुरादाबाद 2. श्रीमती मुज्ज मौहम्मद मतेन, अस्तातपुर, निकट व बाग, मुरादाबाद। गारंटर : श्री व अंजार हुसेन, अस्तातपुर, निकट व बाग, मुरादाबाद

4. मेरठ शाखा- ऋणी: मैसर्स बहुरानी श्रीमती रचना यादव), B-61, दुकान गार्डन, एक्सर्टेशन-II, साहिबाबाद, ग 2. श्रीमती रचना यादव पत्नी श्री नं नं0 1204 A (तेरहवीं मंजिल), ब्लॉट भारत सिटी, फेज-1, ग्राम-क्रम्णी: श्री नं भोला ग्रामाद, पत्नेट नं0 1204 A (व्लॉक टॉवर नं0 A 1, मारत सिटी, (तेरहवीं मंजिल), ब्लॉक टॉवर नं0 दिवर नं0 र

 मेरठ शाखा—ऋणीः श्री कश्यप श्र पुरूषोत्तम लाल श्रीवास्तव, फ्लैट न अमरपाली अपार्टमेंट, सेक्टर-3, वै उ०प्र0-201010

सह-ऋणीः श्रीमती रश्मी श्रीवास्तव श्रीवास्तव, फ्लैट नं. BG-4, 11/2 अपार्टमेंट, सेक्टर-3, वैशाली, गाजि

अपार्टमेंट, सेक्टर-3, वैशाली, गाजि 6. मेरठ शाखा-ऋणीः मैसर्स किसान श्री शकीर मलिक पुत्र श्री हाजी रर्फ

भरत शाखा-सणा: मससा किसा-श्री शकीर मलिक पुत्र श्री हाजी रप पिलोखरी रोड, निकट विजली घर 250002, 2. श्री शकीर मलिक पु: अहमद, 110, पिलोखरी रोड, नि मेरठ (30प्र0)-250002, सह-ऋणी पुत्र श्री हसन अली, 3326, श (30प्र0) 250002, **बंधककती:** श्री श्री हाजी रफीद अहमद, 110, पिले

 अलीगढ़ शाखा-ऋणी: श्रीमती री पत्नी श्री बंटी श्रीवास्तव, निवासी: सांई विहार कॉलोनी, बरौला जपफ 202001, मो0 नं0-9837862019 2. श्री बंटी श्रीवास्तव पुत्र श्री सरेश



### MRP

(A Govt. of India Enterprise and A Subsidiary of ONGC Limited)
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.
CIN No.: L23209KA1988G01008959



**ESAB** 

#### **GLOBAL TENDER NOTICE - MANUAL MODE**

**TENDER NO. / NAME OF WORK** 

TENDER PERIOD

1. 3300007265: Tender for Inspection of CDU-2 Vacuum Heater tubes using Intelligent Pigging & Level-2 API-579 assessment as pertender.

Sale of Tender document
From 17.01.2020 to 06.02.2020 15.00 hrs
Bid Submission closing date:

06.02.2020, 15.00 hrs Bid Opening Date: 06.02.2020, 15.30 hrs

CORRIGENDUM: Refer Tender Published in this newspaper on 18.01.2020, as E-Public Tender. Please read as "Global Tender manual Submission basis" in place of "E-Tender"

Tender is available on **www.mrpl.co.in** and NOT available on **https://www.tenderwizard.com/MRPL**. All other details remain same.

#### Together, Let us build a Clean India



McLEOD RUSSEL

Believe in tea

#### McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L51109WB1998PLC087076 Regd. Office: Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata-700 001 Telephone: 033-2210-1221. Fax: 91-33-2248-8114/6265

Website: www.mcleodrussel.com. E-mail: investors@mcleodrussel.com

#### NOTICE OF BOARD MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of McLeod Russel India Limited ("the Company") will be held on Thursday, 13th February, 2020 at the Registered Office of the Company inter alia to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2019.

This Notice will also be made available on the websites of the stock exchanges www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com as also on the website of the Company, www.mcleodrussel.com

| McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED
| Place : Kolkata | DEBANJAN SARKAR
| Date : 24th January, 2020 | COMPANY SECRETARY

### **ESAB INDIA LIMITED**

CIN: L29299TN1987PLC058738

Regd. Office: Plot No.13, 3rd Main Road, Industrial Estate, Ambattur, Chennai 600 058. Telephone No: 044-4228 1100 | Email id: investor.relations@esab.co.in

NOTICE is hereby given that the following share certificates issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders of the shares have applied to the company for issue of duplicate share certificate.

#### NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

S.No	NAME OF THE SHAREHOLDER	Folio No.	Certificate No.	Distinctive Nos.	Shares
1	NITIN MADHAV DANI NITIKA NITIN MEHTA	N02549	73176	6599478-6599522	45
	HARSHAD L MEHTA NEETA H MEHTA	H01860	142887	5256490-5256539	50
2			142888	5256540-5256564	25
			142889	5256565-5256569	5
3	DEEPAK KUVERJI GOGRI KESARBAI KUVERJI GOGRI	D02753	17994	3793411-3793510	100

The public are hereby warned against purchase or dealing in any way with the above said share certificates. Any person(s) who has / have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the company at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of the notice after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue the duplicate share certificate(s).

Place : Chennai
Date : 25 January, 2020

For ESAB India Limite
S. Verkatakrishnan
Date : 25 January, 2020

#### Road Infrastructure Development Company of Rajasthan Ltd.

First Floor, LIC Jeevan Nidhi Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur – 302005 Tel.: +91 141 2747001, E-mail: office@ridcor.in, CIN: U45203RJ2004PLC019850

RIDCOR/PRJ/ADM/NEW-519/2020/545

RIDCOR intends to invite online tenders through e-procurement for providing technical manpower for supervision of major/routine maintenance works on RIDCOR roads. Bid documents may be downloaded from the website http://eproc.rajasthan.gov.in from 27/1/2020 (1700 Hrs) to 03/02/2020 (1800 Hrs). Online bids will be opened on 04/02/2020. All the particulars and amendments related to this E-NIT can be viewed on the above said website. Interested agencies/firms are required to be registered on the website http://eproc.rajasthan.gov.in through digital signatures.

Coal India Limited
(A Maharatna Company)
(A Govt. of India Enterprise)
(A Govt. of India Enterprise)
(Action Area-1 A Newtown Bajarhat Kolkata-700156

(A Govt. of India Enterprise)
Regd. Office: 3rd Floor, Core-2, Premises No. 04-MAR, Plot No. AF-III,
Action Area-1A, Newtown, Rajarhat, Kolkata-700156
Phone: 033-7110-4369, Fax: 033-23246510
E-mail: mviswanathan2.cil@coalindia.in, Website: www.coalindia.in
CIN- L23109WB1973GOI028844

#### NOTICE

## Sub:- Transfer of Unclaimed Interim Dividend 2012-13 and Equity Shares of Coal India Limited (CIL) to IEPF Authority

Pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017, as amended from time to time, the company is mandated to transfer the amount of Unclaimed Dividend and equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more to IEPF.

In compliance with the said Rules, the company has communicated individually to shareholders whose Unclaimed Interim Dividend amount of 2012-13 and shares are liable to be transferred to the Demat account of IEPF authority with an advice to claim the same. Company has also intimated the other unclaimed dividend declared till date to them to claim the same.

Shareholders of Coal India Limited may please note that the following details are also available in www.coalindia.in under 'Investor Centre, Event & Announcements':-

- Shareholders whose shares will be transferred to Demat Account of IEPF Authority on 13.04.2020 alongwith the amount of Unclaimed Interim Dividend of 2012-13 as they have not claimed dividend for 7 consecutive years.
- Shareholders whose Unclaimed Interim Dividend amount of 2012-13 will be transferred to IEPF Authority on 13.04.2020.

Shareholders are requested to verify the details in CIL website and make an application to M/s Alankit Assignments Ltd, Company's RTA on or before 31<sup>st</sup> Mar'20 requesting for payment of Unclaimed Dividend declared by the Company till date. Else, unclaimed Interim Dividend of CIL for 2012-13 and Shares as mentioned above will be transferred to IEPF Authority on 13.04.2020.

In case of any queries, Shareholders may contact Sri J.K.Singhla, Sr. Manager, M/s Alankit Assignments Ltd, RTA Division, Alankit Heights, 3E/7, Jhandewalan Extension New Delhi-110055, Tel: 011-4254 1234, Fax-011- 4154-3474, e-mail: rta@alankit.com.

Sd/Place: Kolkata (M. Viswanathan)
Date: 12<sup>th</sup> Jan'2020 Company Secretary & Compliance Officer

Visit us at http://www.coalindia.in



### GOVERNMENT Re-issue of 6.979

**Development Loan** 

- Government of Tamil Nadu has o Re-issue of 6.97% Tamil Nadu Sta for an amount of Rs.2000.00 cro for a minimum nominal amount of of Rs.10,000/- thereafter. Auctio under multiple price format and w Bank of India at Mumbai Office (F
- 2. The Government Stock upto 10% the sale will be allotted to eligible subject to a maximum limit of 19 a single bid as per the Revised Stadding facility in the Auctions of Stof the General Notification (Anne an investor can submit a single be Primary Dealer.
- Interested persons may submit the Reserve Bank of India Core System as stated below on Januar
  - a) The competitive bids shall be the Reserve Bank of India Core System between 10.30 A.M. and
  - b) The non-competitive bids shall on the Reserve Bank of India Core System between 10.30 A.M. and
- I. The price expected by the bidder two decimal points. An investor competitive bid at different rate the Reserve Bank of India Core System. However, the aggregate by a person should not exceed th
- 5. The result of auction will be dis India on its website on January 2 should deposit the price amoun bids by means of a Bankers' Chequat Reserve Bank of India, Mun January 29, 2020 before the close
- 6. The Government Stock will be 6.97% per annum. Interest wi July 17 and January 17. The Sto provisions of the Government Government Securities Regulation
- The stocks will qualify for ready for
- For other details please see the roof Tamil Nadu Specific Notificatio dated January 24, 2020.

Additional Chie

DIPR/156/DISPLAY/2020

Da

# **(S) WENDT** WENDT (INDIA) LIMITED

CIN No: L85110KA1980PLC003913

Regd. Office: Flat No. 105, First Floor, Cauvery Block, National Games Housing Complex, Koramangala, Bangalore - 560 047.

### Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December 2019

(Rs in lakhs, except EPS)

	(NS III IAKIIS, EXCEPT EFS)								
		Standalone Financial Results			Consolidated Financial Results				
SL	Partiaulara		Nine Months		Year		Nine Months		Year
No.	Particulars	ended	ended	ended	ended	ended	ended	ended	ended
110		31/12/2019	31/12/2019	31/12/2018	31/03/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2018	31/03/2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	2,827	10,048	3,728	14,285	3,395	11,694	4,361	16,456
2	Net Profit for the period before tax	276	1,292	552	1,905	298	1,420	717	2,193
3	Net Profit for the period after tax	227	1,043	410	1,347	220	1,080	544	1,542
4	Total Comprehensive Income for the period								
	(Comprising Profit after tax and Other								
	Comprehensive income after tax)	203	971	396	1,260	248	1,224	458	1,569
5	Paid-up equity share capital								
	(Face value of Rs. 10/- per share)	200	200	200	200	200	200	200	200



Branch: Plot No.20, Block H1/A, S

## [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable

In pursuance of the scheme of Amalgamation notified in the Gazette of India by the Ministry Services vide G.S.R.No. 2(E) on 02.01.2019, Vijaya Bank has been amalgamated with **Bank of** In terms of the scheme of Amalgamation, all loan documents as well as security interest in transferred and vested with **Bank of Baroda**.

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the **Bank of Baroda** under the Securiti Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the dates mentioned again borrower to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the pub taken possession of the property described hereinbelow in exercise of powers conferred on him u with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the propert be subject to the charge of **Bank of Baroda** for the amounts and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section 13 (8) of the Act in resp secured assets.

S. Name Name of the borrower (Owner

Description of the